



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 आषाढ 1933 (श0)  
(सं0 पटना 335) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2011

---

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं

15 जुलाई 2011

सं0 4(न) गठ-16/2009-3997/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं जो इससे प्रभावित हों सकने वाले हों और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर विभाग में या संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-10438/2009 कुमकुम देवी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 08 अप्रैल 2011 को पारित माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार नगर निगम, मुंगेर को गठित करने वाली विभाग की प्रारूप-अधिसूचना संख्या 641, दिनांक 25 फरवरी 2009 एवं अधिसूचना संख्या 1809, दिनांक 26 मई 2009 एतद् द्वारा बातिल (Annul) की जाती है।

प्रारूप आदेश

सं0 4(न) गठ-16/2009-3997—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उप-धारा (1) (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि

उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, मुंगेर जिलान्तर्गत नगर परिषद, मुंगेर के वर्तमान क्षेत्र के ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों को, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, नगर निगम घोषित करने, प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:-

1. (क) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

ग्राम पंचायत/नगर निकाय	ग्राम का नाम	थाना सं०
(i) नगर परिषद, मुंगेर	वर्तमान नगर परिषद मुंगेर का संपूर्ण क्षेत्र।	
(ख) चौहद्दी		
उत्तर—	गंगा नदी	
दक्षिण—	हसनगंज, सफीयाबाद बाईपास (एन०एच०-80)	
पूरब—	सुजाबलपुर,	164
	नवादा	158
	महुली	151
पश्चिम—	गंगा नदी	

इस क्षेत्र को मुंगेर नगर निगम, मुंगेर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरविन्द कुमार सिंह,

उप-सचिव-सह-निदेशक।

15 जुलाई 2011

सं० 4(न) गठ-16/2009-3997/न०वि०एवंआ०वि० का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरविन्द कुमार सिंह,

उप-सचिव-सह-निदेशक।

*The 15<sup>th</sup> July 2011*

No. 4(n) गठ-16/2009-3997-UD&HD—In exercise of powers conferred by section 3 read with Section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar is pleased to publish the following draft order for the information of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered after a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received within one month of publication of this notification in the Department or through the concerned District Magistrate/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under Section-5 of the said Act.

The department's draft notification no. 641, dated 25<sup>th</sup> February 2009 and notification no. 1809 dated 26<sup>th</sup> May 2009 constituting Municipal Corporation, Munger are hereby annulled as per the Hon'ble High Court's order dated 08<sup>th</sup> April 2011 passed in CWJC No. 10438/2009 Kumkum Devi vs State of Bihar and others

#### Draft Order

No. 4(न) गठ-16/2009-3997—In Exercise of powers conferred by sub section (1) (a) of Section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the present village area of Munger Nagar Prishad declaring it Munger Municipal Corporation falling within the circle of village areas under in the District of Munger whose boundary are noted below:-

1. (a) Name of Village Panchayats, Villages and Thana Nos.

	Name of Village Panchayats/ULB,	Villages and	Thana Nos
(i)	Nagar Parishad, Munger	Entire Area of the existing Nagar Parishad, Munger	

(b) Boundary:-

North-	Ganga River	
South-	Hasanganj, Safiabab, Bypass Road (N.H. 80)	
East-	Sujabalpur	164
	Nawada	158
	Mahuli	151
West-	Ganga River	

This area will be called Munger Municipal Corporation, Munger.

2. This notification shall come to force at once.

By order of the Governor of Bihar,  
ARVIND KUMAR SINGH,  
*Deputy Secretary-Cum- Director.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 335-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>